

प्र. 5. एक अनुभवहीन लेखापाल द्वारा निम्नलिखित तलपट तैयार किया गया है। इसे सही प्रारूप में पुनः आवश्यक टिप्पणियाँ दीजिए – /The following is the Trial Balance prepared by an inexperienced Book Keeper. Redraft it in correct form and give necessary working notes.

Trial Balance for the year ending on 31 st March, 2014			
Sr.	Name of Account	Cr. Balance	Dr. Balance
1.	Opening Stock/प्रारम्भिक माल	30,000	—
2.	Capital A/c/पूँजी खाता	—	25,000
3.	Machinery/मशीन	2,000	—
4.	Furniture/फर्नीचर	—	2,500
5.	Debtors A/c/देनदार खाता	5,000	—
6.	Creditor A/c/लेनदार खाता	—	3,000
7.	Bank Overdraft/बैंक अधिविकर्ष	2,500	—
8.	Discount allowed A/c/बड़ा स्वीकृत खाता	150	—
9.	Purchases A/c/क्रय खाता	40,000	—
10.	Sales A/c/विक्रय खाता	—	65,000
11.	Loan from Ramesh A/c/स्मेश से ऋण खाता	—	4,000
12.	Carriage A/c/गाड़ी भाड़ा	450	—
13.	Investment A/c/विनियोग खाता	—	5,000
14.	Salary A/c/वेतन खाता	5,500	—
15.	Sales Returns A/c/विक्रय वापसी खाता	—	1,500
16.	Int. on Investment A/c/विनियोग पर ब्याज	250	—
17.	Advertisement A/c/विज्ञापन खाता	2,000	—
18.	Purchases Return A/c/क्रय वापसी खाता	—	500
19.	Wages A/c/मजदूरी खाता	—	600
20.	Int. on Ramsh loan A/c/स्मेश के ऋण पर ब्याज	—	50
21.	Drawing A/c/आहरण खाता	2,500	—
	Total/कुल	1,08,350	1,07,150
अथवा / OR			

लेखा मानक मण्डल के कार्य बताइए। भारत में लेखा मानक के निर्माण की प्रक्रिया भी समझाइए।
Give the functions of Accounting Standards Board. Also explain the process of the issue of accounting standards.

◆◆◆

(iv)

D116

CBCOM103

B.COM. FIRST YEAR EXAMINATION, 2015
(Correspondence Course)
PAPER -II : FINANCIAL ACCOUNTING

TIME : 3.00 HRS.

MM : 70

Note : Attempt all questions. Each question carries equal marks.
निर्देश : सभी प्रश्न हल कीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

प्र. 1. निम्नलिखित लेन-देनों को कुमार एण्ड कम्पनी की विभिन्न सहायक पुस्तकों में लिखिए :

2014

- अप्रैल, 4 मेघा एण्ड कम्पनी से 5,800रु. का माल खरीदा, व्यापारिक बढ़ा 10%।
- अप्रैल, 7 वेणु एण्ड कम्पनी को माल बेचा 8,900रु. व्यापारिक बढ़ा 20%।
- अप्रैल, 12 अमर को माल बेचा 6,000रु.।
- अप्रैल, 18 अमर ने 200रु. का माल लौटाया।
- अप्रैल, 21 सुनील एण्ड कम्पनी से 8,000रु. का माल खरीदा।
- अप्रैल, 24 फर्नीचर हाउस से फर्नीचर उधार क्रय किया 1,800रु.।
- अप्रैल, 29 सुनील एण्ड कम्पनी को 300रु. का माल लौटाया।
- अप्रैल, 30 पूंजी पर ब्याज 510रु. लगाया।
- अप्रैल, 30 स्वामी ने व्यापार से निजी प्रयोग के लिए 400रु. का माल निकाला।

Enter the following transactions in various subsidiary books of kumar & co.
2014

- April, 4 Purchased goods from Megha & Co. for Rs. 5,800 less 10% trade discount.
- April, 7 Sold goods to Venu & Co. for Rs. 8,900 less 20% trade discount.
- April, 12 sold goods to Amar for Rs. 6,000.
- April, 18 Goods worth Rs. 200 returned by Amar.
- April, 21 Purchased goods from Sunil & Co. for Rs. 8,000.
- April, 24 Purchased furniture for Rs. 1,800 from furniture House on credit.
- April, 29 Goods worth Rs. 300 returned to Sunil & Co.
- April, 30 Interest on capital provided Rs. 510.
- April, 30 Goods worth Rs. 400 taken by proprietor for his personal use.

अथवा / OR

जर्नल क्या है? यह कैसे तैयार की जाती है?

What is Journal? How is it prepared?

(i) कृ.पृ.उ./P.T.O.

प्र. 2. निम्नलिखित विवरण से 30 अप्रैल, 2013 को एक बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिये।
Prepare a Bank Reconciliation statement from the following particulars on 30th April, 2013.

- (i) रोकड़ बही के बैंक खाने का क्रेडिट शेष 3,200 रु.
- (ii) Cr. Balance as per bank column of the Cash Book Rs. 3,200
- (iii) 720 रु. के बैंक लिखे किन्तु अभी तक भुगतान के लिए पेश नहीं किये गये।
Cheques issued but not yet presented to the bank for payment Rs. 720
- (iv) 1,540 रु. के बैंक संग्रह हेतु बैंक में जमा कराये गये किन्तु बैंक द्वारा अभी संग्रह नहीं किये गये। / Cheques deposited in to bank for collection but not yet collected by the bank Rs. 1,540.
- (v) बैंक ने शुल्क लिया 20 रु. / Bank Charges Rs. 20
- (vi) बैंक ने अधिविकर्ष पर व्याज लिया 25 रु. / Interest on overdraft charged by the bank Rs. 25
- (vii) एक ग्राहक ने सीधे हमारे बैंक में 240 रु. जमा कर दिये / A customer directly deposited cash into our bank Rs. 240

अथवा / OR

मूल्य हास से क्या आशय है? कोई तीन विधियों का वर्णन कीजिये।

What is meant by Depreciation? Discuss any three methods.

प्र. 3 निम्नलिखित चिह्न में अ और ब की 31 मार्च, 2014 की स्थिति बताता है, जिस दिन से वे अपने व्यापार का विघटन करने का निश्चय करते हैं।

The following balance sheet states position of Messres A and B on 31st March, 2014 on which date they decide to dissolve the business.

Balance Sheet as on 31 st March, 2015			
Liabilities	Amount	Assets	Amount
Sundry Creditors	3,800	Stock	7,200
Reserves	2,000	Book Debts	12,000
A'S Capital	11,000	Furniture	400
B'S Capital	8,000	Machinery & Plant	1,800
		Profit and Loss Account	3,400
	24,800		24,800

पुस्तक ऋण 7½% की लागत वसूल किये गये: स्टॉक 6,000 रु. में बेचा गया। मशीन और प्लांट 1,400 रु. में बेचा और फर्नीचर 500 रु. में बेचे गये। उपर्युक्त चिह्नों के आधार पर आवश्यक खाते खोलिए और साझियों को अन्तिम देय रकम का आहरण दिखाते हुए पुस्तकों

(ii)

को बन्द कीजिए। साझी बराबर-बराबर हिस्सा बांटते हैं। / The book debts were collected at a cost of 7½%; stock sold for Rs. 6,000, Machinery and plant for Rs. 1,400 and furniture for Rs. 500. Open the necessary ledger accounts on the basis of above balance sheet and show the final closing of the books, including the withdrawal by the partners of any ultimate balance due to them.

अथवा / OR

पूर्णव्यापक खाता कैसे कहते हैं? यह क्यों, कब और कैसे तैयार किया जाता है? काल्पनिक आंकड़ों से हूए उपयुक्त उदाहरण दीजिए। / What is Revaluation Account? Why, When, and how is it prepared? Give a suitable example taking imaginary figures.

प्र. 4. अग्रलिखित विवरण से लाभ की हानि के बीमे के अन्तर्गत दावे की राशि ज्ञात कीजिए। व्यवसाय में 10% वृद्धि की प्रवृत्ति मानिए: / From the following particulars, ascertain the amount of claim under a loss of profit policy. Assume a 10% upward trend in the business:

- (i) क्षतिपूर्ति काल आग लगने की तिथि से 6 माह;
Indemnity period : 6 months from the date of fire
- (ii) बीमा पॉलिसी की राशि 60,000 रु.; / Policy Amount : Rs. 60,000
- (iii) आग लगने की तिथि 1.4.2013; व्यवसाय में व्यवधान की अवधि 1.8.2013 तक;
Date of fire 1-4-2013; Interruption in business up to 1-8-13
- (iv) वर्ष 2012 की बिक्री 2,40,000 रु.; 2012 का शुद्ध लाभ 26,000 रु. / Sale for the year 2012 Rs. 2,40,000; Net profit for the year 2012 Rs. 26,000
- (v) वर्ष 2012 के स्थिर व्यय (समस्त बीमित) 34,000 रु.;
Standing charges for the year 2012 (All Insured) Rs. 34,000
- (vi) 1.4.2012 से 31.3.13 तक बिक्री 3,20,000 रु.; 1.4.2013 से 1.8.2013 तक की बिक्री 3,00,000 रु. और 1.4.2012 से 1.8.2012 तक की बिक्री 1,00,000 रु.
Sales from 1.4.2012 to 31.3.2013 Rs. 3,20,000; from 1.4.2013 to 1.8.2013 Rs. 30,000 and from 1.4.2012 to 1.8.2012 Rs. 1,00,000.

अथवा / OR

स्पष्ट रूप से टिप्पणियां लिखिए: / Write explanatory notes on :

- (i) मार्ग में माल / Goods in transit (ii) मार्ग में रोकड़ / Cash in transit
- (iii) शाखा स्थायी सम्पत्तियों पर मूल्य-हास / Depreciation on branch fixed assets
- (iv) अन्तर शाखा व्यवहार / Inter-branch transactions

(iii) कृ.पृ.उ./P.T.O.

- Q. 4. विनिमय साध्य विलेख क्या है? इसकी विशेषताओं का वर्णन करो।
What is negotiable instrument? Describe its Features.

OR / अथवा

टिप्पणी करो :/Write a note :

- (i) राज्य आयोग / State Commission
(ii) राष्ट्रीय आयोग / National Commission

- Q. 5. फर्म के समापन से आप क्या समझते हैं? वर्णन करो।

What do you mean by Dissolution of firm? Explain it.

OR / अथवा

निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए :

Write notes on the following :

- (i) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 / Consumer Protection Act 1986
(ii) एजेंसी के अनुबंध / Contract of Agency



(ii)

कृ.पृ.उ./P.T.O.

B.COM. FIRST YEAR EXAMINATION, 2015

(Correspondence Course)

PAPER -III : BUSINESS REGULATORY FRAMEWORK

TIME : 3.00 HRS.

MM : 70

Note : Attempt all questions. Each question carries equal marks.
निर्देश : सभी प्रश्न हल कीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

- Q. 1. समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं किन्तु समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते। व्याख्या कीजिए।
All contracts are Agreements but all Agreements are not contracts
Explain.

OR / अथवा

एक ठहराव किन परिस्थितियों में व्यर्थ हो जाता है। वर्णन करो।
Describe the situations when an agreement is declared void?

- Q. 2. एजेंसी किसे कहते हैं? अपने नियोक्ता के एक एजेंट अधिकारों व कर्तव्यों का वर्णन करो?

What is an Agency? Explain the rights and duties of an Agent towards his Principal?

OR / अथवा

वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो।
Describe Features of sale of goods Act 1930.

- Q. 3. अदत्त विक्रेता क्या है? उसके अधिकारों का वर्णन करो।
Who is an unpaid seller? Describe his Rights.

OR / अथवा

किराया क्रय अनुबंध की विशेषताओं का वर्णन करो।
Describe features of Hire Purchase contract.

Q. 7. What is Direct Tax? Describe its Profit?
प्रत्यक्ष कर क्या है? इसके लाभों का वर्णन करो?

Q. 8. What is Turnover? Explain the term under central Sale Tax
विक्रय राशि क्या है? केन्द्रीय बिक्री कर के अंतर्गत इसे समझाइये।

Q. 9. What is Customs duty Authorities? Explain their power?
सीमा शुल्क प्राधिकारी क्या है? इसकी शक्तियों व अधिकारों का वर्णन करो?



D1118

CBCOM105

B.COM. FIRST YEAR EXAMINATION, 2015
(Correspondence Course)
PAPER - IV : TAX PROCEDURE & PRACTICES

TIME : 3.00 HRS.

MM : 70

Note : Attempt all questions. Each question carries equal marks.
निर्देश : कोई पांच प्रश्न हल कीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Q. 1. What is Agriculture Income? Describe on Taxation Agriculture income
in India?

कृषि आय क्या है? भारत में कृषि आय पर कर का वर्णन करो?

Q. 2. Describe the Provisions of Custom duty Act 1962.
सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के प्रावधानों का वर्णन करो?

Q. 3. Described the provisions of central Sale Tax Act 1956.
केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 के प्रावधानों का वर्णन करो?

Q. 4. Write Short notes on -/टिप्पणी करो -
(i) Registration of Dealers/व्यापारियों का पंजीकरण
(ii) Collection of Tax/कर का संग्रह

Q. 5. Explain the Definition of Dealer under The Rajasthan Value Added
Tax 2003?

राजस्थान संवर्धित कर अधिनियम 2003 के अंतर्गत व्यापारी की परिभाषा स्पष्ट करो।

Q. 6. Write Short notes on -/टिप्पणी करो -
(i) Form C/फार्म C
(ii) Form H/फार्म H

(ii)

(i) कृ.पु.उ./P.T.O.

B.COM. FIRST YEAR EXAMINATION, 2015

(Correspondence Course)

PAPER - V : BUSINESS STATISTICS**TIME : 3.00 HRS.****MM : 70***निर्देश : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।**Note : Attempt any five questions. Each question carries equal marks.*

Q. 1. Define Classification. Discuss the purpose and method of classification giving suitable examples.

वर्गीकरण की परिभाषा दीजिए। उपयुक्त उदाहरण देते हुए वर्गीकरण के उद्देश्य और विधियों की व्याख्या कीजिए।

Q. 2. An incomplete statement is given below.

एक अपूर्ण वितरण नीचे दिया है –

Value (मूल्य)	Frequency (आवृत्तियाँ)
0-10	-
10-20	10
20-30	20
30-40	25
40-50	40
50-60	7
60-70	25
	15

How ever the median is known to be 35. Find the missing frequency.

मध्यका का मूल्य 35 है। अज्ञात आवृत्ति की गणना कीजिए।

Q. 3. What do you understand by dispersion? Explain the method for measuring dispersion.

अपकृति से आप क्या समझते हैं? अपकृति के मापने की विधियों का वर्णन कीजिए।

(i)

कृ.पृ.उ./P.T.O.

Q. 4. Calculate the coefficient of correlation from the following data.
निम्नांकित संमकों से सहसम्बंध गुणांक की गणना कीजिये।

X	78	89	97	69	59	79	68	61
Y	125	137	156	112	107	136	123	108

Q. 5. What is rank order of y series from following data.

निम्न संमकों से y श्रेणी के कोटिक्रम क्या है?

X Series	20	22	24	25	30	32	28	21	26	35
Y	+1	-2	+1	+1	-4	-6	0	7	2	0

Q. 6. Calculate consumer Index Number from the following data.

निम्न संमकों से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना कीजिए।

Groups	Weight	Index Number
Food	71	370
Clothing	3	423
fuel	9	469
House Rent	7	110
Miscellaneous	10	279

Q. 7. From the following data calculate long term values using method of least squares.

निम्न संमकों से न्यूनतम वर्ग रीति द्वारा उपनति मूल्यों की गणना कीजिए।

Years	2003	2004	2005	2006	2007
Sales					
(Rs. Lakshs)	70	74	80	86	90

Q. 8. Find the regression equation from the following data.

निम्नलिखित संमकों के आधार पर प्रतीपगमन समीकरण ज्ञात कीजिए।

Age of husband	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Age of wife	17	17	18	18	18	19	19	20	21	22

Q. 9. विषमता एवं अपकिरण में क्या अन्तर है? विषमता मापने की कौनसी विभिन्न रीतियाँ हैं? समझाइये।

Differentiate between Dispersion & skewness. What are the various methods of measuring skewness? Explain.

Q. 10. Explain the function of statistics.

सांख्यिकी के कार्यों का वर्णन कीजिए।



पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत अल्पकाल एवं दीर्घकालीन मूल्य एवं उत्पादन निर्धारण किस प्रकार होता है। समझाईए।

How price and output are determined on short term and long term under the perfect competition?

Q. 4. वितरण के सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।

Critically examine the marginal productivity theory of distribution.

OR / अथवा

रिकार्डों के लगान सिद्धान्त का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

Critically examine the Ricardian theory of Rent.

Q. 5. सकल राष्ट्रीय उत्पादन की अवधारणा को स्पष्ट करें। इसकी गणना कैसे की जाती है? Explain the concept of Gross National Product. How Gross National Product is measured?

OR / अथवा

टिप्पणी लिखें:

Write short notes:

(i) मांग की कीमत लोच की श्रेणियों

Degree of Price-elasticity

(ii) बाजार मूल्य एवं सामान्य मूल्य में अन्तर

Distinguish between market price and normal price



(ii)

(i) कृ.पृ.उ./P.T.O.

B.COM. FIRST YEAR EXAMINATION, 2015

(Correspondence Course)

PAPER - VI : BUSINESS ECONOMICS

TIME : 3.00 HRS.

MM : 70

Note : Attempt all questions. Each question carries equal marks.

निर्देश : सभी प्रश्न हल कीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Q. 1. व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र को समझाईए। इनकी सीमाओं का वर्णन कीजिए।/Explain Micro Economics and Macro Economics. Elucidate its limitations.

OR / अथवा

सीमान्त उपयोगिता हास नियम की व्याख्या कीजिए। इस नियम के अपवाद क्या हैं? Explain the law of diminishing marginal utility. What are exceptions of the law of diminishing marginal utility.

Q. 2. उत्पत्ति हास नियम को रेखाचित्रों की सहायता से समझाईए तथा इसकी सीमाओं का वर्णन कीजिए।

Explain the law of diminishing returns and describe its limitation.

OR / अथवा

माल्थस के जनसंख्या सिद्धान्त का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

Critically examine the Malthusian theory of population.

Q. 3. मूल्य निर्धारण के सामान्य सिद्धान्त को स्पष्ट कीजिए तथा मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन का सामान्य मूल्य पर प्रभाव बतलाईए।

Explain the general theory of value and describe the effects on equilibrium price when there is change in supply and demand.

B.COM. FIRST YEAR EXAMINATION, 2015
(Correspondence Course)

PAPER - VII : BUSINESS BUDGETING

TIME : 3.00 HRS.

MM : 70

Note : Attempt all questions. Each question carries equal marks.

निर्देश : सभी प्रश्न हल कीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

- Q. 1. Define Budget, Its characteristics, objectives limitations and Advantages/बजट को परिभाषित कीजिए। बजट की विशेषताएं, इसके उद्देश्य, सीमाओं तथा लाभ को बताइये।

OR / अथवा

Explain objectives of Budgeting and mention the necessary qualities of Effective Budgeting.

बजटन के उद्देश्यों को बताइये एवं प्रभावशाली बजटिंग के आवश्यक गुण बताइये।

- Q. 2. Explain the Importance and Limitations of Business Forecasting.
पूर्वानुमान के महत्व और सीमाओं को समझाइये।

OR / अथवा

On the following sales data estimate the sales of 2009.

निम्न विक्रय आंकड़ों से वर्ष 2009 के लिए विक्रय अनुमान लगाइये।

Year/वर्ष	2004	2005	2006	2007	2008
Sales/बिक्री (In Lac)	83	92	71	90	169

(i)

कृ.पू.उ./P.T.O.

Q. 3. Define flexible Budget, its Advantages and limitations. Explain the Procedure to prepare it./लोचशील बजट को परिभाषित कीजिए। इसके लाभ सीमाएं तथा लोचशील बजट निर्माण की प्रक्रिया बताइये।

OR / अथवा

Prepare a Budget of Ram Enterprise on 80% & 100% Activity level. Following Information is given on 60% Activity Base.

राम एन्टरप्राइज का 80% एवं 100% क्रियाशीलता के स्तर पर एक बजट तैयार कीजिये। 60% क्रियाशीलता के आधार पर सूचना निम्न प्रकार से है :

(a) Production at 60% activity 600 Units

उत्पादन 60% प्रतिशत क्रियाशीलता

(b) Material/सामग्री Rs. 100 Per Unit

(c) Labour (direct)/मजदूरी (प्रत्यक्ष) Rs. 40 per Unit

(d) Other direct expenses/अन्य प्रत्यक्ष खर्चे Rs. 10 per Unit

(e) Factory overheads/कारखाना उपरिव्यय Rs. 40,000 (40% Fixed)

(f) Administrative expenses /प्रबंधकीय खर्चे Rs. 30,000 (30% Fixed)

(g) Selling & distribution expenses/विक्रय एवं वितरण खर्चे

Rs. 20,000 (100% Fixed)

(h) Selling Price/विक्रय मूल्य Rs. 400 Per Unit

Q. 4. What is cash budget? Explain Its objectives, improtance and explain In detail the procedure to make Cash Budget with suitable Examples. रोकड़ बजट को परिभाषित कीजिए। इसके उद्देश्य महत्व एवं निर्माण के बारे में उदाहरण सहित विस्तार से समझाइये।

OR / अथवा

Define Product and Production Decisions and what techniques are used for product & production related decisions.

उत्पाद एवं उत्पाद निर्णय से क्या आशय है तथा उत्पाद एवं उत्पादन संबंधी निर्णयों के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है।

(ii)

Q. 5. Write Short Notes on./संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

- (1) Sales Budget/विक्रय बजट
- (2) Classification of Budget on the basis of activity

क्रिशीलता के आधार पर बजट का वर्गीकरण

OR / अथवा

A producer thinks if he can produce another product after producing one product. Data are as follows./एक उत्पादक विचार करता है कि क्या वह अपने उत्पादों में से एक वस्तु का उत्पादन करके दूसरी वस्तु का उत्पादन प्रारंभ कर सकता है। वर्तमान लागत एवं प्रति इकाई समंक निम्नलिखित है -

Product उत्पाद	Price कीमत	Variable Cost परिवर्तनीय लागत	% of total sales कुल बिक्री का %
Book Shelves/किताब दराज	60	40	30%
Tables/मेज	100	60	20%
Beds/विस्तर	200	120	50%

Total Fixed cost per year/पूरे वर्ष की स्थिर लागत रु. 7,500/-

Present Sales of year/इस वर्ष की आगामी बिक्री रु. 25,000/-

Production of cabinet is under consideration instead of tables

टेबल का उत्पादन बंद कर कैबिनेट का उत्पादन विचारणीय है।

Product उत्पाद	Price कीमत	Variable Cost परिवर्तनीय लागत	% of total sales कुल बिक्री का %
Book Shelves/किताब दराज	60	40	50%
Cabinet/ विस्तर	160	60	10%
Beds/विस्तर	200	120	40%

Total Fixed cost per year/पूरे वर्ष की स्थिर लागत रु. 7,500/-

Projected Sales of year/इस वर्ष की आगामी बिक्री रु. 26,000/-

◆◆

(iii)